


किडनी और लिवर के लिए घातक है हीट स्ट्रोक

गर्मियों में काफी लोग हीट स्ट्रोक के शिकार हो जाते हैं। हीट स्ट्रोक एक गंभीर मामला है। इस स्थिति से पूरी तरह बचना संभव है, लेकिन हीट स्ट्रोक में जरा-सी लापरवाही मौत को न्योता दे सकती है। सबसे पहले समझते हैं कि हीट स्ट्रोक है क्या। कैसे ये शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को प्रभावित करता है और किन तरीकों से इससे बचा जा सकता है।



दिल, किडनी और लिवर खतरे में

तेज गर्मी से शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी पेट से जुड़े अंगों के काम करने की क्षमता एकदम से बढ़ जाती है। इससे आमतौर पर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और तुरंत ही दिल पर इसका असर पड़ने लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल तेजी से कम होने लगता है। मेटाबॉलिज्म बिगड़ने से शरीर में बेकार की चीजों को निकलने का मौका नहीं मिलता, जिससे किडनी और लिवर डैमेज होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में पेशेंट को आईसीयू में इलाज की जरूरत पड़ जाती है। यूरिन रुक जाने की हालात में किडनी तक फेल होने की संभावना बनी रहती है।

जल्दी लक्षण समझें

शरीर का तापमान तेजी से बढ़ना, बहुत ज्यादा गर्मी लगना, सिरदर्द, थकान, पसीना न निकलना, चिड़चिड़ापन, चक्कर आना, जी मिचलाना, सांसों का तेजी से बढ़ना और घटना आदि हीट स्ट्रोक के शुरुआती लक्षण होते हैं। कई बार एकाएक बेहोशी या दौरों जैसे हालात भी बन जाते हैं। हीट स्ट्रोक में पहला घंटा सबसे अहम होता है। इसके बाद जान को खतरा बढ़ता ही चला जाता है।


मरीज की ऐसे कर सकते हैं मदद

कोई गर्मी के कारण बेहोश होता दिखे, तो उसे तुरंत पानी या इलेक्ट्रोलाइट्स का घोल पिलाएं। बेहोश हो गया हो, तो तुरंत उसके सिर, हाथ, बगलों और तलवों पर ठंडे पानी में भिगोया कपड़ा रखें।

उसे छांव में ले जाएं। हो सके तो बर्फ के पानी की पट्टियां रखें। ये सारे फर्स्ट एड हैं, इसलिए अस्पताल ले जाने में जरा भी देर न करें। मौसम कोई भी हो, थोड़ी-थोड़ी देर में पानी पिलाते रहें। लंबे समय तक धूप में काम करने वालों को चाहिए कि बीच-बीच में किसी ठंडी जगह पर जाकर दो मिनट शरीर को आराम देते रहें।


दो तरह से होता है प्रभाव

हीट स्ट्रोक उन लोगों को जल्दी प्रभावित करता है, जो बिना किसी सुरक्षा उपाय के धूप में या बहुत ही गर्मी में लंबे समय तक रहते हैं। इनमें जिम में एक्सरसाइज करने वाले लोग भी शामिल हैं। सड़क पर काम करने वाले और किसी भट्टी पर काम करने वाले मजदूरों को हीट स्ट्रोक का खतरा सबसे ज्यादा होता है। एक दूसरी तरह के हीट स्ट्रोक का अटैक अमूमन उन लोगों पर होता है, जिनका शरीर बदलते तापमान के हिसाब से जल्दी एडजस्ट नहीं होता। इसमें छोटे बच्चे, बुजुर्ग और वे लोग शामिल हैं, जो किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे होते हैं।



न्यूरोपैथिक दर्द से पाएं राहत

न्यूरोपैथिक पेन एक जटिल और लंबे वक्त तक चलने वाला दर्द है। यह दर्द क्षतिग्रस्त व ठीक तरह से काम न करने वाले या चोटिल स्नायु (नर्व) फाइबर्स के कारण पैदा होता है।



उपचार

न्यूरोपैथिक दर्द के कारण को चिन्हित करते हुए चिकित्सा करना। डीकम्पेशन मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी के जरिये तंत्रिका पर पड़ रहे दबाव को हटाना। रीढ़ या आसपास के भाग में नर्व ब्लाक इंजेक्शन- के जरिये चिकित्सा करना।

लक्षण

सुइयां जैसी चुभना, जलन होना, त्वचा का सुन्न पड़ जाना और तेज दर्द होना इस रोग के लक्षण हैं। इसके अलावा बिजली के करंट जैसा झटके के साथ दर्द होना और चींटियां जैसा काटने का अनुभव होना न्यूरोपैथिक दर्द के लक्षण हैं।

कारण

न्यूरोपैथिक दर्द के कुछ सामान्य कारणों में शराब का अत्यधिक सेवन, डायबिटीज होना, एचआईवी संक्रमण, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन और पैर व कमर संबंधी समस्या को शामिल किया जाता है।

डायग्नोसिस

न्यूरोपैथिक दर्द का पता लगाने के लिए डॉक्टर शारीरिक जांच करते हैं। आपके स्नायुओं (नर्व्स) को नुकसान पहुंचा है या नहीं, यह पता लगाने का सबसे सामान्य तरीका है- इलेक्ट्रोमायोग्राम के साथ नर्व कंडक्शन स्टडी। सियोमीटर जांच।

गलत धारणाएं और तथ्य

केवल डायबिटीज से ग्रस्त व्यक्तियों को ही न्यूरोपैथिक दर्द होता है।

इस तरह की धारणा गलत है। सच तो यह है कि डायबिटीज से ग्रस्त व्यक्तियों में न्यूरोपैथिक समस्या सामान्य रूप से पायी जाती है, लेकिन कीमोथेरेपी लेने वाले, किसी तरह की चोट या बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों, ऐसे व्यक्ति जिनका कोई अंग-भंग हो गया हो, उन्हें भी न्यूरोपैथिक दर्द हो सकता है। बढ़ती उम्र के साथ भी न्यूरोपैथिक दर्द हो सकता है।

रोकथाम

तंत्रिकाओं (नर्व्स) का दर्द कम करने के लिए डायबिटीज पर नियंत्रण रखें। नशे से दूर रहें और व्यायाम करें।

व्यायाम से पैरों और पंजों के स्नायुओं में रक्त संचार ठीक तरह से होता है।

व्यायाम- उंगलियों और हाथों को गोल-गोल घुमाएं, पूरे शरीर की मांसपेशियों को स्ट्रेच करें।

खान- पान- में साबुत अनाज, विटामिन सी युक्त फल और हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर और पौधों से प्राप्त बसा का सेवन लाभकारी है।

क्यों उठ रहा है दिमाग में भूकंप

बीते दिनों नेपाल और भारत में आए भूकंप के बाद तमाम लोग डॉक्टरों और मनोरोग विशेषज्ञों के पास गए। इनमें से ज्यादातर लोगों की प्रमुख शिकायत थी कि भूकंप के गुजर जाने के बाद वे बेचैनी महसूस कर रहे हैं...। किसी का कहना था कि उन्हें ढंग से नींद नहीं आ रही है कि पता नहीं कब भूकंप के झटके महसूस होने लगे। किसी-किसी का कहना था कि उन्हें अभी भी कभी-कभी यह महसूस होता है कि जमीन हिल रही है...आदि।

पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिऑर्डर

इस संदर्भ में नई दिल्ली के वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ डॉ. अचल भगत कहते हैं कि मेरे पास उपर्युक्त समस्याओं के बावत लोग आए। असल में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो वे जिन्हें भूकंप के दौरान जान-माल की क्षति हुई। ऐसे लोग एक मनोरोग- पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिऑर्डर- से ग्रस्त हो सकते हैं। ऐसे लोगों में घबराहट बहुत ज्यादा होती है। उनके दिमाग में पुरानी घटनाओं का फ्लैश बैक चलता रहता है।

बचें कैटेस्ट्रॉफिक थिंकिंग- से

जिन लोगों का भूकंप से नुकसान नहीं हुआ है और वे तब भी आशंकाग्रस्त व अत्यधिक भयग्रस्त हैं, तो उनकी इस सोच को मनोचिकित्सकीय भाषा में कैटेस्ट्रॉफिक थिंकिंग (हादसे से संबंधित सोच) कहा जाता है। इस संदर्भ में नई दिल्ली के एक अन्य वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉ. गौरव गुप्ता कहते हैं कि भूकंप के बाद तमाम लोगों के मन में डर अपनी जड़ें जमा लेता है। धीरे-धीरे यह भय एंगजाइटी (बेचैनी) में बदल जाता है।

इलाज

कोई व्यक्ति भूकंप के गुजरने के बाद भी बेचैनी महसूस कर रहा है, तो वह मनोरोग विशेषज्ञ से काउंसिलिंग व दवा ले। ध्यान दूसरी ओर आकर्षित करें। किसी हॉबी में मशगूल हों। मन को बहलाने का प्रयास करें। ईश्वर का ध्यान करें। इससे आपका मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ता है, मन की बेचैनी कम होती है और आप इस सत्य को समझने लगते हैं कि भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। इसलिए स्वयं को नकारात्मक सोच के दायरे में रखना अपना ही नुकसान करना है।



मायोपिया से बचने के लिए टीवी कम देखें

बात जब मनोरंजन की हो, तो अपने बच्चे को स्क्रीन देखने से ज्यादा आउटडोर खेलने के लिए प्रोत्साहित करें। यह मायोपिया से बचाव का की फैक्टर हो सकता है। अनुमान है कि भारत में हर तीन में से एक व्यक्ति मायोपिया का शिकार है और बच्चों में यह समस्या बढ़ रही है। एम्स के शोधकर्ताओं के अनुसार भारत में 12 साल की उम्र के आठ बच्चों में से एक को ब्लैकबोर्ड पढ़ने के लिए चश्मा लगता है। इस अध्ययन में दिल्ली के सरकारी और निजी स्कूलों के करीब 10 हजार छात्रों की समीक्षा की गई और पाया गया कि 11.6 साल की औसत उम्र के 13.1 फीसदी बच्चे निकट दृष्टि दोष के शिकार हैं। हालांकि अब तक सूरज की रोशनी और मायोपिया का संबंध स्थापित नहीं किया जा सका है लेकिन कई ताजा अध्ययनों की दलील है कि सूरज की रोशनी इस रोग से बचाव में मदद करती है। शोधकर्ता कहते हैं कि इस रोग के लिए जीन्स की भूमिका भी हो सकती है। यूरोप और एशिया के 45 हजार लोगों पर किये जा रहे एक बड़े अध्ययन में सामने आया है कि दृष्टि से 24 जीन्स का संबंध है जिनमें से 2 इस रोग के कारण से जुड़े हैं। जिन लोगों में ये जीन्स होते हैं उनमें मायोपिया होने की आशंका 10 गुना बढ़ जाती है। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे उन बच्चों में मायोपिया के मामले ज्यादा देखे गये, जिनके अभिभावक या भाई-बहन इस रोग से ग्रस्त हैं या जो उच्च आय वाले परिवारों से संबंधित हैं। यह आनुवांशिकी को नहीं दर्शाता लेकिन कुछ ऐसी गतिविधियों को इंगित करता है जो नेत्र संबंधी समस्या से जुड़ी हैं जैसे टीवी या स्क्रीन गैजेट्स आदि का प्रयोग। शोधकर्ताओं ने पाया कि उन बच्चों में मायोपिया सबसे ज्यादा पाया गया जो दिन में पांच घंटे से ज्यादा पढ़ते हैं या टीवी, कंप्यूटर, वीडियो व मोबाइल गैम्स आदि पर रोज दो घंटे से ज्यादा समय बिताते हैं।

स्त्रियों में कुपोषण की समस्या



कुपोषण का अर्थ है पोषण की कमी। पोषण मिलता है उचित आहार-विहार द्वारा। जब अनुचित या मिथ्या आहार-विहार किया जाता है तो प्रायः शरीर में किसी न किसी पदार्थ की कमी होना स्वाभाविक है एवं उस पदार्थ की कमी विभिन्न लक्षणों के रूप में व्यक्त हो कर शरीर को रोगी बना देती है। कुपोषण स्त्री, पुरुष व बच्चे किसी में भी पाया जा सकता है। यहाँ हम चर्चा करेंगे स्त्रियों में कुपोषण की समस्या पर। आज यह एक ज्वलंत समस्या बन कर खड़ी है। बढ़ती महंगाई व बढ़ती जनसंख्या एवं घटते संसाधनों के कारण यह समस्या निरंतर दुःखदायी बनती जा रही है। स्त्री चूँकि परिवार व समाज का महत्वपूर्ण स्तंभ है- अतः उसका स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। रोगिणी या कमजोर स्त्री का परिवार कभी सुखी नहीं हो सकता। अतः यह समस्या केवल शारीरिक ही नहीं अपितु सामाजिक समस्या भी है। लक्षण = कुपोषण होने पर प्रायः शारीरिक कमजोरी, मानसिक अवसाद, खून की कमी, शरीर का पीला या सफेद पड़ना, आंखों के चारों ओर कालिमा होना, आंखें गूँथे में धंसी दिखाई पड़ना, भूख की कमी, थोड़े प्रयास से भी श्वास चढ़ाना, चक्कर आना, इसके अलावा किसी विशेष विटामिन या आयरन, प्रोटीन व मिनरल की कमी से होने वाले विशेष लक्षण दिखलाई पड़ते हैं। प्रोटीन की कमी के कारण मांसपेशियों का कमजोर होना और यकृत का ठीक से कार्य न करना, विटामिन ए की कमी से आंखों का कमजोर व बीमार होना पाया जाता है।

विटामिन बी: की कमी से विकार व नाड़ी विकार होते हैं। इसी प्रकार अन्य अनेक रोगों से शरीर ग्रस्त हो जाता है। **कारण:** कुपोषण के अनेक कारण हैं, इनमें से कुछ निम्न प्रकार से हैं। गरीबी, भुखमरी, अपर्याप्त भोजन लेना। गलत भोजन का चयन अर्थात् ऐसा भोजन जिसमें विटामिन-मिनरल या अन्य पोषक पदार्थों का अभाव हो अर्थात् असंतुलित भोजन। आवश्यकता से अधिक भोजन लेना अपच पैदा कर कुपोषण का कारण बनता है।

एक ही प्रकार के विटामिन की अधिकता युक्त भोजन लेना। प्राकृतिक विषमताजन्य पदार्थ जैसे वनस्पतियों के बीज, पीतल, अल्यूमीनियम के बर्तनों में पका खाना। कुसमय भोजन करना, भोजन के प्रति लापरवाही बरतना। सस्ते के चक्कर में नीम-हकीमों की सलाह लेना। गरीबी, ईंधन, घर की सफाई पर ध्यान देना। किसी दिमागी या शारीरिक रोग की वजह से भूख न लगना। कट्टर शाकाहारी होना।

नशेड़ी होना। गर्भावस्था के दौरान, स्तनपान के दौरान। कड़ा परिश्रम करने वालों में खासकर उठे प्रदेश में सामान्य खुराक पर्याप्त नहीं होती। कभी-कभी किन्हीं रोगों के कारण भी कुपोषण की समस्या उत्पन्न होती है। लंबी अवधि तक किसी शल्य कर्म के कारण ग्लूकोस का चढ़ना। लंबी अवधि तक एंटीबायोटिक लेने से आंतों के बैक्टीरिया की क्रियाशीलता का कम होना। नेफ्रोतिक सिंड्रोम में प्रोटीन का मूत्र द्वारा बाहर निकल जाना प्रोटीन की कमी का कारण बनता है। डायबिटीज में ग्लूकोज का अधिक मात्रा में मूत्र में आना।

अधिक माहवारी होना लौह तत्व की कमी का कारण बनता है। अतिसार या दस्त आना पोटाशियम की कमी करता है। इस प्रकार उपरोक्त कारणों में से कोई एक कारण भी कुपोषण पैदा कर सकता है। उपरोक्त लक्षणों की जानकारी हासिल कर लेने के पश्चात् आप स्वयं भी इसका निर्णय कर सकते हैं कि कहीं आप कुपोषण से ग्रस्त तो नहीं हैं? घर की व घर के अन्य सदस्यों की देखभाल करने में स्त्रियां प्रायः अपनी स्वयं की ओर ध्यान नहीं दे पाती। काम निपटाकर ही भोजन करने की प्रवृत्ति उन्हें रोगी बना सकती है परन्तु उन्हें अपनी इस आदत को त्यागकर अपना ध्यान अवश्य रखना चाहिए। ऐसा न हो कि कुपोषण का छोटा स्वरूप भी कहीं किसी गंभीर रोग में तब्दील हो जाए। यदि उपरोक्त एक भी लक्षण आपको स्वयं में दिखाई दे तो समय नष्ट किए बिना चिकित्सक से परामर्श लें व उचित उपचार में लापरवाही न बरतें।

टेस्ट रैंकिंग : हिटमैन का जलवा, शीर्ष पांच में वापसी, कोहली-जायसवाल को भी फायदा



एजेसी ▶ दुबई
भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा की टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पांच में वापसी हो गई है। बुधवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल की तरफ से जारी की गई टेस्ट रैंकिंग में हिटमैन ने शीर्ष पांच में सितंबर 2021 के बाद वापसी की है। वहीं, विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल को भी फायदा हुआ है। दोनों क्रमशः छठे और सातवें स्थान पर पहुंच गए हैं। तीनों भारतीय बल्लेबाजों को भारत बनाम बांग्लादेश सीरीज में अच्छे प्रदर्शन से अपनी रैंकिंग में सुधार करना चाहिए।



फार्म में यशस्वी
भारत ने इस साल इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज खेली थी। इस दौरान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने दमदार प्रदर्शन किया था। दोनों जबरदस्त फॉर्म में थे। युवा बल्लेबाज ने इस सीरीज में दो शतक और तीन अर्धशतकों की मदद से 712 रन बनाए थे। वहीं, भारतीय कप्तान ने भी दो शतक लगाकर 400 रन बनाए थे। हालांकि, विराट कोहली इस सीरीज में नहीं खेले थे।

रुट शीर्ष पर बरकरार
जो रुट टेस्ट बल्लेबाजों रैंकिंग में शीर्ष पर बने हुए हैं। लेकिन श्रीलंका के खिलाफ तीसरे और अंतिम टेस्ट में दो बार विफल होने के बाद इंग्लैंड के पूर्व कप्तान की रैंकिंग में कमी आई है। अब उनके 922 अंक से 899 अंक हो गए हैं। इससे दूसरे स्थान पर मौजूद न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन (859) की टेस्ट बल्लेबाजों रैंकिंग में वंबर एक बल्लेबाज बनने की राह आसान हो गई है। पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज बाबर आजम शीर्ष 10 से बाहर बने हुए हैं, जबकि विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान नौवें स्थान के साथ देश के सर्वोच्च रैंकिंग वाले बल्लेबाज बने हुए हैं।

Table with 4 columns: रैंक, खिलाड़ी, देश, अंक. Lists top 5 test batsmen.

खबर संक्षेप
अफगानिस्तान/न्यूजीलैंड तीसरे दिन का खेल धुला

ग्रेटर नोएडा। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट पर बारिश की गाज लगातार गिर रही है और तीसरे दिन का खेल भी बुधवार को भारी बारिश के कारण रुक होने से मैच के पूरी तरह धुलने के आसार हैं। पहले दो दिन भी गीली आउटफील्ड के कारण एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी थी। मौसम को देखते हुए मैच अधिकारियों ने बुधवार का खेल रद्द करने में देर नहीं लगाई। अभी तक मैच का टॉस भी नहीं हो सका है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा, 'अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे दिन का खेल भारी बारिश के कारण रद्द हो गया है। आसमान साफ होने पर मैच कल होगा और 98 ओवर फेंके जाएंगे।'

भारतीय हॉकी टीम लगातार तीसरी जीत से 9 अंक के साथ शीर्ष पर
एसीटी : राजकुमार की हैट्रिक से भारत अंतिम-4 में, मलेशिया को 8-1 से रौंदा

एजेसी ▶ हनुमानगढ़
युवा स्ट्राइकर राजकुमार पाल की हैट्रिक के दम पर गत विजेता भारत ने मलेशिया को 8-1 से हराकर लगातार तीसरी जीत के साथ बुधवार को यहां हीरो एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। राजकुमार (तीसरा, 25वां और 33वां मिनट) के अलावा अराइजीत सिंह हुंजाल (छठा और 39वां मिनट), जुगराज सिंह (सातवां मिनट), कप्तान हरमनप्रीत सिंह (22वां मिनट) और उत्तम सिंह (40वां मिनट) ने गोल दागे। मलेशिया के लिए अखिमल्लाह अनवर (34वां मिनट) ने एकमात्र गोल किया। भारत तीन मैच जीतकर नौ अंक के साथ शीर्ष पर है। छह टीमों का टूर्नामेंट राउंड रॉबिन आधार पर खेला जा रहा है जिसमें शीर्ष चार टीमों में 16 सितंबर को होने वाले सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। फाइनल 17 सितंबर को खेला जाएगा। भारत ने इससे पहले मेजबान चीन को 3-0 से और जापान को 5-1 से हराया था। पेरिस ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भारतीय टीम का सामना गुरुवार को कोरिया से और शनिवार को पाकिस्तान से होगा।



दागे पांच फील्ड गोल
भारत और मलेशिया के बीच 2023 एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम हाफटाइम तक 1-3 से पीछे थी जिसके बाद वापसी करके 4-3 से जीत दर्ज करके खिताब जीता। भारतीय स्ट्राइकरों ने अपना शानदार फॉर्म जारी रखते हुए पांच फील्ड गोल किए जबकि जुगराज, हरमनप्रीत और उत्तम ने पेनल्टी कॉर्नर तब्दील किए।

क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4

क्वार्टर 1: भारत ने आक्रमक शुरुआत करते पहले ही क्वार्टर में लगातार हमले बोलें। राजकुमार ने तीसरे ही मिनट में शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए अकेले दम पर गेंद को गोल के भीतर डाला। तीन मिनट बाद अराइजीत ने भारत की बढ़त दोगुनी कर दी। एक मिनट बाद जुगराज ने पेनल्टी कॉर्नर झूठकर भारत को पहले ही क्वार्टर में 3-0 की बढ़त दिला दी।
क्वार्टर 2: दूसरे क्वार्टर में मलेशिया ने आक्रमक शुरुआत की और पेनल्टी कॉर्नर भी बनाया लेकिन गोल नहीं हो सका। भारत को 22वें मिनट में दो पेनल्टी कॉर्नर मिले जिनमें से एक पर हरमनप्रीत ने गोल किया। कुछ मिनट बाद राजकुमार ने अराइजीत और उत्तम के शानदार मूव पर अपना दूसरा गोल किया।
क्वार्टर 3: दूसरे हाफ के तीसरे ही मिनट में राजकुमार ने सीनियर स्तर पर अपनी पहली हैट्रिक पूरी करते हुए विवेक सागर प्रसाद के पास पर तीसरा गोल किया। मलेशिया के लिए इस बीच अनवर ने एक गोल दागा।
क्वार्टर 4: भारत के लिए अराइजीत ने गोलकाता के पास पर गोल किया जबकि उत्तम ने पेनल्टी कॉर्नर पर रिबाउंड के जरिए गोल दागा। इससे पहले एक अन्य मैच में पाकिस्तान ने जापान को 2-1 से हराया।

जिसेल का शतरंज पर पर होगा प्रभाव
लंदन। भारतीय ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगोसी को उम्मीद है कि वैश्विक शतरंज लीग से खेल पर उसी तरह असर पड़ेगा जो क्रिकेट पर आईपीएल का पड़ा है। जिसेल दुनिया की पहली और सबसे बड़ी आधिकारिक फ्रेंचाइजी लीग है जिसमें दुनिया भर के शतरंज खिलाड़ी अनेक संयुक्त टीम प्रारूप में खेलेंगे। एरिगोसी ने कहा, 'यह बहुत बड़ी बात है कि अब शतरंज में भी वैश्विक शतरंज लीग हो रही है। उम्मीद है कि इसका शतरंज पर वही असर होगा जो आईपीएल का क्रिकेट पर है।'

कृष्णा खेतान जूनियर बैडमिंटन स्पर्धा आज से पंचकुला। कृष्णा खेतान स्मृति 31वां अखिल भारतीय बैडमिंटन जूनियर टूर्नामेंट बृहस्पतिवार से शुरू होगा जिसमें चार लाख रुपये की ईनामी राशि है। हरियाणा बैडमिंटन संघ और एक्सप्रेस शटल क्लब ट्रस्ट द्वारा आयोजित टूर्नामेंट ताक देवीलाल इंडोर स्टेडियम में खेला जाएगा। क्वालीफाईंग मुकाबले 12 से 15 सितंबर तक होंगे और मुख्य ड्रों के मैच 16 से 19 सितंबर के बीच खेले जाएंगे। इसमें एक जनवरी 2006 को या उसके बाद जन्में बच्चे भाग ले सकेंगे। ओलंपिक पदक विजेता साइना नेहवाल, पी वी सिधु के अलावा किदाम्बी श्रीकांत, एच एस प्रणय, लक्ष्य सेन और सार्वभौम साइराज रंकीरेड्डी जैसे सितारे इसमें भाग ले चुके हैं।



दलीप ट्रॉफी
दूसरा दौर आज से, रिकू अय्यर, सुंदर पर फोकस
एजेसी ▶ अनांतपुर
रिकू सिंह समेत राष्ट्रीय चयनकर्ताओं को अनदेखी के शिकार कुछ अनुभवी खिलाड़ियों पर सभी की नजरें होंगी जब गुरुवार से दलीप ट्रॉफी के दूसरे दौर के मुकाबले शुरू होंगे। बांग्लादेश के खिलाफ चेन्नई में 19 सितंबर से शुरू हो रहे पहले टेस्ट से पूर्व भारतीय टीम के खिलाड़ियों को आराम दिया गया है जिससे कई सितारे दूसरे दौर में नहीं खेल सकेंगे। सरफराज खान भारतीय टीम के अकेले सदस्य हैं जो इस परेल्स टूर्नामेंट के दूसरे दौर में दिखेंगे। शानदार प्रथम श्रेणी रिकॉर्ड के बावजूद पहले दौर में नहीं चुने गए।

कोलंबिया ने अर्जेंटीना को 2-1 से हराया
एजेसी ▶ बोगोटा
जेम्स रौड्रिगेज के पेनल्टी पर किये गए गोल की मदद से कोलंबिया ने दक्षिण अमेरिकी विश्व कप फुटबॉल क्वालीफायर मुकाबले में अर्जेंटीना को 2-1 से हराया। अर्जेंटीना को लियोनेल मेस्सी की कमी खली जो चोट के कारण कोपा अमेरिका फाइनल के बाद से नहीं खेल रहे हैं। कोलंबिया के लिए येरसोन मोस्केरा ने 25वें मिनट में पहला गोल किया लेकिन निकी गोंजालेस ने 48वें मिनट में बराबरी का गोल दागा। रौड्रिगेज ने 60वें मिनट में पेनल्टी पर गोल करके कोलंबिया को जीत दिलाई। विश्व कप चैंपियन अर्जेंटीना ने जुलाई में कोलंबिया को 1-0 से हराकर कोपा अमेरिका खिताब जीता था। अन्य मुकाबलों में बोलिविया ने चिली को 2-1 से हराया जबकि इक्वाडोर ने पेरू को एक गोल से मात दी। वेनेजुएला और उरुग्वे का मुकाबला गोलरहित ड्रॉ रहा।

अमेरिका, जर्मनी, आस्ट्रेलिया, कनाडा और बेलजियम डेविस कप के पहले दौर में जीते

एजेसी ▶ वालोरिया
जर्मनी ने दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव के बिना भी स्लोवाकिया को 3-0 से हराया जबकि 2023 के उपविजेता आस्ट्रेलिया ने फ्रांस को डेविस कप फाइनल्स के पहले मुकाबले में मात दी। चारों ग्रुप के मुकाबले चार अलग अलग शहरों में शुरू हुए। अंतिम आठ चरण के मुकाबले नवंबर में स्पेन के मालागा में खेले जाएंगे। हर ग्रुप से शीर्ष दो टीमों क्वालीफाई करेंगी। ग्रुप सी में जर्मनी ने स्लोवाकिया को हराया। चीन के जुहाइ में इस ग्रुप के एक अन्य मैच में 32 बार के विजेता अमेरिका ने चिली को 2-0 से हरा दिया। वहीं



आस्ट्रेलिया ने ग्रुप बी में फ्रांस को 2-1 से मात दी। ग्रुप डी में कनाडा ने अर्जेंटीना को 2-1 से हराया जबकि ग्रुप ए में बेलजियम ने नीदरलैंड को इसी अंतर से मात दी।

नई भूमिका में भी प्रभावी होंगे भारतीय हॉकी की दीवार
शुक्रिया श्रीजेश : प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा पत्र

एजेसी ▶ नई दिल्ली
हॉकी को अलविदा कह चुके महान गोलकीपर पी आर श्रीजेश ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला पत्र सोशल मीडिया पर साझा किया है। 16 अगस्त को लिखे पत्र में प्रधानमंत्री ने खेल में उनके योगदान की सराहना करते हुए विश्वास जताया है कि वह नए राष्ट्रीय जूनियर कोच के रूप में भी उतने ही प्रभावी होंगे। टोक्यो ओलंपिक के बाद पेरिस में कांस्य जीतने के बाद श्रीजेश ने हॉकी से विदा ली। भारतीय हॉकी की दीवार कहे जाने वाले श्रीजेश एशियाई खेलों में दो स्वर्ण और चैंपियंस ट्रॉफी में दो रजत भी जीत चुके हैं। हॉकी इंडिया ने उन्हें जूनियर टीम का नया मुख्य कोच बनाया है।
प्रधानमंत्री मोदी का पत्र
मुझे विश्वास है कि नई भूमिका में भी आपका काम उतना ही प्रभावी और प्रेरणादायक होगा। आपने खेल से विदा लेने का फैसला किया है और मैं भारतीय हॉकी में आपके अपार योगदान की हृदय से सराहना करता हूँ। 2014 एशियाई खेल, रियो, टोक्यो और पेरिस ओलंपिक में आपके प्रदर्शन शानदार रहे। ऐसी अवसरित्तवार्डे हैं और इनके लिए एक पत्र पर्याप्त नहीं है। आपके मिले विभिन्न पुरस्कार, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पदक बताते हैं कि आपने किस ऊंचाइयों को छुआ है। लेकिन इसके बावजूद आपकी किनमता और गरिमा, नेतृत्व से भीतर और बाहर, प्रशंसनीय है। मुझे विश्वास है कि आपका जूनून, प्रतिबद्धता और समर्पण अगली पीढ़ी के विश्व विजेताओं को तैयार करेंगे। मैं आपको आपके अथक समर्पण, शानदार कैरियर और भारत को गौरवान्वित करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। इन सभी यादों के लिए धन्यवाद और भविष्य के लिए शुभकामना।
- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री



श्रीजेश ने प्रधानमंत्री मोदी का पत्र साझा करते हुए एक्स पर लिखा, 'मेरे संन्यास पर नरेंद्र मोदी सर का पत्र मिला। हॉकी मेरा जीवन है और मैं खेल की सेवा करता रहा। भारत को हॉकी की महाशक्ति बनाने के लिए काम करता रहा जिसकी शुरुआत 2020 और 2024 ओलंपिक पदकों से हो गई है। मुझ पर विश्वास जताने के लिए धन्यवाद प्रधानमंत्री सर।'

क्रिप्टोकॉरेसी में गिरावट, बिटकॉइन के निवेशकों को 220 बिलियन डॉलर का नुकसान

एजेंसी ► नई दिल्ली

अमेरिका में मंदी की आशंका का असर शेयर बाजार से लेकर क्रिप्टो के संसार तक दिख रहा है। खराब आर्थिक आंकड़े आने के बाद दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी गिरावट आई थी। शेयर बाजार तो संभलने का दौर जारी है। क्रिप्टो मार्केट कैप के अनुसार, सबसे प्रमुख क्रिप्टोकॉरेसी बिटकॉइन के भाव में 0.11 फीसदी की गिरावट दिख रही है और यह अभी 56,812 डॉलर पर आया हुआ है। बिटकॉइन की कीमतें 11 फीसदी टूट गई थीं। अभी सबसे प्रमुख

बिटकॉइन एक सप्ताह में 15 फीसदी से अधिक टूटा

सबसे ज्यादा नुकसान में इथेरियम

गिरावट के अनुपात के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा नुकसान में इथेरियम है। इसके भाव में 20 फीसदी की गिरावट आई थी। आज यह क्रिप्टोकॉरेसी 0.29 फीसदी गिरकर 2,500 डॉलर से नीचे आ चुकी है। बीते 7 दिन के हिसाब से इसके भाव करीब 25 फीसदी टूट हुए हैं। इथेरियम अभी 300 बिलियन डॉलर से कुछ ज्यादा एमकेप के साथ दूसरी सबसे प्रमुख क्रिप्टोकॉरेसी है।



मस्क की दौलत के बराबर नुकसान

अभी बिटकॉइन का मार्केट कैप 1.12 ट्रिलियन डॉलर के पास है। मंदी की आशंका के चलते बिटकॉइन के मार्केट कैप में करीब 220 बिलियन डॉलर का गिरावट आई है। यानी कठ से कहें कि बिटकॉइन के निवेशकों ने पिछले कुछ दिनों में 220 बिलियन डॉलर का भारी-भरकम नुकसान उठाया है। इस आंकड़े का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क की नेटवर्थ अभी 223 बिलियन डॉलर है।

क्रिप्टोकॉरेसी बिटकॉइन बीते 7 दिनों के हिसाब से लगभग 15 फीसदी के नुकसान में टूट कर रही है, जबकि उसके भाव मार्च 2024 में हासिल किए गए हाई लेवल की तुलना में 20 फीसदी नीचे आए हुए हैं।

अन्य प्रमुख क्रिप्टोकॉरेसी में भी गिरावट

अन्य क्रिप्टोकॉरेसी को देखें तो बीएनबी 0.61 फीसदी ड्राउन है, जबकि सोलाना में 1 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई है। बीते 7 दिनों के हिसाब से इन दोनों क्रिप्टोकॉरेसी की गिरावट लगभग 17-17 फीसदी की है। इसी तरह एक्सआरपी और डॉगेकॉइन 20-20 फीसदी से ज्यादा के नुकसान में हैं। टोनकॉइन और कार्डानो के भाव क्रमशः 15 फीसदी और 17 फीसदी गिरे हुए हैं।

एक बंदरगाह के जरिए कुछ वस्तुओं की आवाजाही

पं. बंगाल के बंदरगाहों के जरिए भारत-बांग्लादेश व्यापार जल्द ही सामान्य होने की उम्मीद

एजेंसी ► कोलकाता

दोनों देशों के भूमि बंदरगाह अधिकारियों के बीच बुधवार को पश्चिम बंगाल के उत्तर-24 परगना जिले में दक्षिण एशिया के सबसे बड़े भूमि बंदरगाह पेत्रपोल में बैठक होने वाली है, जिससे 'माल के परिवहन पर स्पष्टता मिलने की उम्मीद है।'

निर्यात के लिए ट्रक तैयार हो रहे

बांग्लादेश में संकट के महानजर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थिति की समीक्षा करने के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के महानिदेशक भी मंगलवार को पेत्रपोल में थे। कैरिडॉम एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स टेलफैर एसोसिएशन के पदाधिकारी जयदेव सरकार ने कहा, ट्रक तैयार हो रहे हैं और घोजादंगा के रास्ते बांग्लादेश की ओर कुछ माल की आवाजाही शुरू हो गई है।

भारत से आंवाला, मिर्च और गेहूँ चोकर का निर्यात

यह इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि घोजादंगा के दूसरी ओर पड़ोसी देश के मोमरा में स्थिति स्थिर बंदरगाह से बांग्लादेश को आंवाला, मिर्च, हल्दी और गेहूँ चोकर जैसी प्रमुख वस्तुएं निर्यात की जाती हैं।

बांग्लादेश में जारी राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद पश्चिम बंगाल में भूमि बंदरगाहों के जरिये भारत और पड़ोसी देश के बीच व्यापार जल्द ही सामान्य होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि इनमें से एक बंदरगाह के जरिये कुछ वस्तुओं की आवाजाही की खबर है।

स्थिति नियंत्रण में लाने प्रयास

स्थानीय मीडिया के अनुसार, बांग्लादेश में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में जान गंवाने वालों की संख्या मंगलवार को 440 हो गई है। हालांकि, हिंसा प्रभावित देश में स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए सेना द्वारा प्रयास जारी है।



भारत से सब्जियां, कॉफी, चाय, मसाले निर्यात

बांग्लादेश को भारत के मुख्य निर्यात में सब्जियां, कॉफी, चाय, मसाले, चीनी, रिफाइंड पेट्रोलियम तेल, रसायन, कपास, लोहा और इस्पात तथा वाहन आदि शामिल हैं। वहीं भारत को बांग्लादेश का निर्यात कुछ श्रेणियों जैसे चरून तथा परिधानों तक ही सीमित है, जो उनके निर्यात का 56 प्रतिशत है।

भारतीय पक्ष कुछ चिंताएं जता रहा

एक अन्य कारोबारी ने बताया कि मालदा के महादीपुर में ट्रकों को भी माल निर्यात के लिए तैयार किया जा रहा है। बांग्लादेश के बेनापोल बंदरगाह में सीएडएफ एजेंट एसोसिएशन के एक अधिकारी ने कहा कि व्यापार अभी तक पुनः शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, 'ट्रक तैयार हैं, लेकिन भारतीय पक्ष कुछ चिंताएं जता रहा है।'

भारत का निर्यात 2023-24 में 11 अरब डॉलर रहा

बांग्लादेश को भारत का निर्यात 2022-23 में 12.21 अरब अमेरिकी डॉलर से घटकर 2023-24 में 11 अरब डॉलर रह गया। आयात भी पिछले वित्त वर्ष में घटकर 1.84 अरब डॉलर रह गया, जो 2022-23 में दो अरब डॉलर था।

माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस और अमेजन इंडिया सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड : रिपोर्ट

एजेंसी ► नई दिल्ली

माइक्रोसॉफ्ट भारत का सबसे 'आकर्षक' नियोक्ता ब्रांड बनकर उभरा है। रैंडस्टैट एम्प्लायर ब्रांड रिसर्च (आरईबीआर)-2024 ने एक रिपोर्ट में कहा कि इसके बाद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) और अमेजन क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।

सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया कि माइक्रोसॉफ्ट में वित्तीय स्वास्थ्य, अच्छी प्रतिष्ठा और करियर में प्रगति के अवसरों पर बहुत ऊंचा स्कोर हासिल किया है। ये तीन कंपनियों में कर्मचारियों के मूल्य की दृष्टि से प्रमुख कारक (ईवीपी) हैं। शीर्ष 10 सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड में चौथे स्थान पर टाटा पावर कंपनी और इसके बाद क्रमशः टाटा मोटर्स, सैमसंग इंडिया, इम्फोसिस, लार्सन एंड टूब्रो, रिलायंस इंडस्ट्रीज और मार्सिडीज-बेंज हैं। आरईबीआर-2024 एक स्वतंत्र सर्वेक्षण है,

प्रतिभाएं काम में एआई का उपयोग चाहती हैं
इसके अलावा, यह देखा जा रहा है कि अधिकांश कार्यबल को अपने नियोक्ताओं से महंगाई को देखते हुए भी कुछ न कुछ अतिरिक्त लाभ दिया गया है। लिफ्टऑ से यह भी पता चलता है कि प्रतिभाएं अपने काम में कृत्रिम मेधा (एआई) का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहती हैं।

धातु, ऊर्जा शेयरों में लिवाली से सेंसेक्स 875 अंक चढ़ा

एजेंसी ► मुंबई

स्थानीय शेयर बाजारों में बुधवार को पिछले तीन दिन से जारी गिरावट पर विराम लगा और बीएसई सेंसेक्स 875 अंक चढ़ गया। वहीं एनएसई निफ्टी फिर से 24,000 अंक के स्तर को पार कर गया। दुनिया के अन्य प्रमुख बाजारों में तेजी तथा निचले स्तर पर शेयरों की लिवाली से बाजार में मजबूती आई। तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 874.94 अंक यानी 1.11 प्रतिशत उछलकर 79,468.01 अंक पर चढ़ गया। कारोबार के दौरान एक समय यह 1,046.13 अंक चढ़कर 79,639.20 अंक पर पहुंच गया था। निफ्टी भी 304.95 अंक यानी 1.27 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,297.50 अंक पर चढ़



■ निफ्टी फिर 24,000 अंक के पार

हुआ। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, 'बैंक ऑफ जापान के हिटो गवर्नर के वित्तीय अस्थिरता के दौरान ब्याज दर नहीं बढ़ाने के फिर से आश्वासन के बाद वैश्विक बाजारों में उल्लेखनीय तेजी आई। घरेलू बाजार में चौरफरा लिवाली हुई।'

अदाणी पोटर्स में रही मजबूती

सेंसेक्स के 30 शेयरों में से अदाणी पोटर्स एंड सेज 3.42 प्रतिशत और पावरगिड 3.39 प्रतिशत मजबूत हुए। इसके अलावा टाटा स्टील, जेएसटीएल, इकोसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मासिटी और लार्ज एंड टूब्रो प्रमुख रूप से लाभ में रहीं।

एयरटेल रहा नुकसान में

इसके उल्ट नुकसान में रहने वाले शेयरों में इंडस्ट्रियल बैंक, भारतीय एयरटेल, हिंदुस्तान यूनिट्रीज, टैक महिंद्रा और टाइटन शामिल हैं। इस तेजी में ज्यादातर क्षेत्रों का योगदान रहा। लेकिन धातु, ऊर्जा और औषधि क्षेत्र सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले क्षेत्र रहे।

टेस्ला ने चीन में 16 लाख से अधिक कार वापस बुलाई

बीजिंग। टेस्ला चीन में 16.8 लाख कार को 'रिमोट सॉफ्टवेयर अपग्रेड' के लिए वापस बुला रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 'ट्रंक' बंद न होने पर चालक को इसके बारे में आगाह किया जाए। चीन के बाजार नियामक के अनुसार, खराब 'ट्रंक लैच' वाले वाहनों की मरम्मत निःशुल्क की जाएगी। वाहन को वापस बुलाने के नोटिस में कहा गया, गाड़ी चलाते समय 'ट्रंक' (कार का बूट) का ढक्कन खुल सकता है, जिससे चालक को देखने में परेशानी हो सकती है। इसमें यह जानकारी नहीं दी गई कि क्या टेस्ला की किसी कार के साथ ऐसा कभी हुआ या नहीं।

एक लाख इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री का लक्ष्य

टाटा मोटर्स की नई इलेक्ट्रिक एसयूवी कर्व पेश, कीमत 17.49 लाख

एजेंसी ► मुंबई

घरेलू वाहन विनिर्माता टाटा मोटर्स ने बुधवार को कहा कि वह इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खंड की दीर्घकालिक संभावनाओं को लेकर आश्वस्त है और इन वाहनों की बिक्री में आई हालिया गिरावट सिर्फ एक 'अल्पकालिक' मामला है। इसके साथ ही कंपनी ने कहा कि वह चालू वित्त वर्ष में एक लाख इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री का लक्ष्य लेकर चल रही है। इस दौरान कुछ नए वाहनों को भी पेश किया जाएगा। टाटा मोटर्स के यात्री वाहन एवं ईवी खंड के प्रबंध निदेशक शैलेश चंद्रा ने यहां कंपनी की नई एसयूवी कर्व.ईवी की पेशकश के मौके पर पीटीआई-भाषा के साथ बातचीत में यह बात कही। ईवी को लेकर मांग और बुकिंग अच्छी : चंद्रा ने कहा, 'ईवी खंड व्यापक यात्री वाहन उद्योग का ऐसा

कुछ नए मॉडल आने वाले हैं

चंद्रा ने कहा कि टाटा मोटर्स चालू वित्त वर्ष में एक लाख इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री करना चाहती है। उन्होंने कहा, 'कुछ नए मॉडल भी आने वाले हैं और त्योहारी मौसम भी आ रहा है। ऐसे में हम अब भी इस आंकड़े पर टिके हुए हैं।'



जुड़ी चिंताएं अब कम

चंद्रा ने कहा, 'मुझे लगता है कि दो साल पहले ईवी वाजिब, कीमत या तय की जाने वाली दूर से जुड़ी चिंताएं कहीं अधिक थीं। बिक्री में गिरावट एक अल्पकालिक समस्या है और इसे लेकर हमें अधिक फिक्रमंद नहीं होना चाहिए।'

कुल बिक्री में ईवी का खंड 12 फीसदी

टाटा मोटर्स ने महंगे आकर की अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी कर्व.ईवी को पेश किया। इस नई एसयूवी की कीमत 17.49 लाख रुपये से शुरू होती है। यह नया मॉडल कंपनी के ईवी मॉडलों की श्रृंखला में नई कड़ी है। कंपनी की कुल बिक्री में ईवी खंड का योगदान करीब 12 प्रतिशत है।

अप्रैल-जून में बिक्री रही धीमी

हालांकि, चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में टाटा मोटर्स की ईवी इकाइयों की बिक्री धीमी पड़ी है। इस बारे में पूछे जाने पर चंद्रा ने कहा, 'अत्यधिक उच्च आधार प्रभाव के अलावा व्यापक वाहन उद्योग के रुझान ने भी ईवी बिक्री पर असर डाला।'

चीन का जुलाई में निर्यात सात प्रतिशत बढ़ा

बैंकॉक। चीन का निर्यात जुलाई माह में सालाना आधार पर सात प्रतिशत बढ़ा है। हालांकि, यह अर्थशास्त्रियों के करीब 10 प्रतिशत की वृद्धि के पूर्वानुमान से कम है। एक रिपोर्ट के अनुसार, आयात 7.2 प्रतिशत बढ़कर 215.9 अरब डॉलर हो गया, जो अन्य एशियाई देशों के साथ मजबूत व्यापार के दम पर गति पकड़ रहा है। अब चीन को कई औद्योगिक घटक, सामग्री और उपभोक्ता उत्पाद आपूर्ति करते हैं। अमेरिका को निर्यात में सालाना आधार पर 2.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

सीतारमण ने पेश किया विनियोग विधेयक, जम्मू कश्मीर भी शामिल

खर्च के लिए एक निश्चित धनराशि को अधिकृत किया जाएगा

एजेसी नई दिल्ली

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को राज्यसभा में विनियोग विधेयक (नंबर 2) 2024 पेश किया। इस विधेयक के जरिए भारत की समेकित निधि से वित्तीय वर्ष 2024-25 में खर्च के लिए एक निश्चित धनराशि को अधिकृत किया जाना है।

इसके साथ ही वित्त मंत्री ने जम्मू कश्मीर विनियोग (नंबर 3) विधेयक भी ऊपरी सदन में पेश किया। लोकसभा में पिछले हफ्ते ही ये दोनों विधेयक पारित किए थे।



पूँजीगत व्यय परियोजना में 11.11 प्रतिशत की वृद्धि
सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। केंद्र सरकार ने 2024-25 के लिए पूँजीगत व्यय परियोजना को 11.11 लाख करोड़ रुपये पर रखा है। आम चुनावों से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट में इसकी घोषणा की थी।

सरकार का लक्ष्य

2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4.9 प्रतिशत निर्धारित किया। सरकार का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5 प्रतिशत से नीचे लाना है।

दिविजय बोले

नहंगाई घटाने और रोजगार पर ध्यान दे सरकार



असमानता कम करने पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को कामों को नियंत्रण में रखने और रोजगार सृजन पर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस नेता दिविजय सिंह ने कहा कि सरकार का ध्यान अमीरों और गरीबों के बीच आर्थिक अंतर को कम करने पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को कामों को नियंत्रण में रखने और रोजगार सृजन पर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस नेता दिविजय सिंह ने कहा कि सरकार का ध्यान अमीरों और गरीबों के बीच आर्थिक अंतर को कम करने पर होना चाहिए।

अरबपतियों की संख्या सबसे ज्यादा बढ़ी

सिंह ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान अरबपतियों की संख्या सबसे ज्यादा बढ़ी है। गरीब और गरीब होते हुए और अमीर ज्यादा अमीर होते गए। सिंह ने देश के 300 धनाढ्य परिवारों पर दो प्रतिशत का दर से संपत्ति कर लगाने की भी वकालत की। सिंह ने वित्तमंत्री से केंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली सभी दवाओं और यंत्रों पर सीमांकन हटाने की भी मांग की। उन्होंने स्वास्थ्य बीमा पर लगने वाले 18 फीसदी जीएसटी को भी हटाने की मांग की।

फोगाट मामले पर बोले सुरजेवाला

किसने देश की बेटी की पीठ में छुरा घोंपा?



भारतीय पहलवान विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित होने पर कांग्रेस नेता रणधीर सुरजेवाला ने कहा कि जापान की महिला पहलवान को 42 बाउट में नहीं हारी, उसे हमारी बेटी विनेश फोगाट ने कुश्ती की छुरा घोंपा में हरा दिया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणधीर सुरजेवाला ने कहा कि कोन है जिसने हरियाणा और देश की बेटी की पीठ में छुरा घोंपा? कोन है इस नफरती पंडित के पीछे? कोन है जिससे विनेश फोगाट की जीत हजम नहीं हुई? किसका चेहरा बचाने की हुई कोशिश? सबका पक्षपात होगा। सुरजेवाला ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और विनेश को न्याय मिलना चाहिए।

खबर संक्षेप

बच्चों समेत परिवार के 5 सदस्यों की मौत

चिचौड़गढ़। चिचौड़गढ़-निम्बाहेड़ा फोरलेन पर मंगलवार रात करीब 11 बजे के बीच यह हादसा हुआ। निम्बाहेड़ा सदर थाना क्षेत्र में आने वाली भावलिया गांव की पुलिया के पास अज्ञात भारी वाहन ने एक बाइक को कुचल दिया। बाइक पर सवार 3 पुरुष, 1 महिला तथा 2 बच्चों की मौत हो गई, वहीं एक मासूम उछलकर दूर जा गिरी।

दिल्ली में मंत्री आतिशी फहराएंगी तिरंगा

नई दिल्ली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जेल से उपराज्यपाल वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखी है। सीएम ने स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में तिरंगा फहराने को लेकर चिट्ठी लिखी है। सीएम ने कहा कि 15 अगस्त को मेरी जगह मंत्री आतिशी तिरंगा फहराएंगी। सीएम केजरीवाल जेल में बंद हैं।

वया केजरीवाल को फिर गिरफ्तार करेंगे?

नई दिल्ली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत को इंडी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इंडी की ओर से मामले में अपील पर हाई कोर्ट ने पूछा कि क्या जांच एजेंसी केजरीवाल को दोबारा गिरफ्तार करना चाहती है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा को कोर्ट ने यह कहा।

सिरसा में इंटरनेट एसएमएस पर रोक

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने सिरसा में कल रात 8 अगस्त 23:59 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवा और बल्क एसएमएस सर्विस पर रोक लगा दी है। आदेश में कहा गया है कि सिरसा में टेंशन, परेशानी, आंदोलन, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सार्वजनिक शांति बिगाड़ने की आशंका है।

सीजेआई की पीठ ने जज की टिप्पणी को निंदनीय बताया

हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट हैरान

एजेसी नई दिल्ली

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश में एक टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह इससे बेहद दुखी है और ऐसी टिप्पणियां गंभीर चिंता की बात हैं। सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश में की गई गलत टिप्पणियों को ऑर्डर से हटा दिया। 7 जुलाई को हाई कोर्ट के जस्टिस राजबीर सहयावत ने एक आदेश पारित किया था जिसमें उन्होंने ऐसी टिप्पणी की थी जिसका मकसद यह बताना था कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को सहयोगी अदालत की तरह न देखे। जस्टिस सहयावत ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए स्टे ऑर्डर की आलोचना करते हुए यह टिप्पणी की थी।

खुर्शीद के बयान पर मचा घमासान, भाजपा ने किया चौतरफा हमला

जो बांग्लादेश में हो रहा वह भारत में भी संभव

सलमान का कथन भड़काने वाला राहुल की सोच को कर रहा उजागर

एजेसी नई दिल्ली

भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में इन दिनों सियासी उथल-पुथल मची हुई है। छात्रों के विरोध से शुरू हुआ आंदोलन अब हिंसक हो उठा है। इस हिंसा में अब तक 450 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सीमाई देश में इस तरह के हालातों पर भारत ने चिंता जाहिर की है। साथ ही सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है। पीएम मोदी के नेतृत्व में इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक भी हुई थी। जिसमें तकरीबन सभी दलों ने सरकार का समर्थन किया था। वहीं अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने इस मुद्दे पर एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे विवाद खड़ा हो गया है। खुर्शीद ने कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वह भारत में भी हो सकता है। उनके इस बयान पर भाजपा के कई नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई है।

राहुल ने कहा था-देश में आग लगेगी दंगे होंगे और पीएम पर हमला होगा



यह कहा खुर्शीद ने बाद में सफाई भी पेश की जब इसका व्यापक तौर पर विरोध हुआ तो उन्होंने बयान पर सफाई भी दी। सलमान खुर्शीद ने कहा कि मैं जो भी कहता हूँ, सार्वजनिक रूप से कहता हूँ, जिजी तौर पर कभी नहीं।

भाजपा ने किया पलटवार

कांग्रेस की राष्ट्रनीति आई सामने: पूनावाला

खुर्शीद के इस बयान की भाजपा ने आलोचना की है। भाजपा नेता शहनवाज पूनावाला ने इसे लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का कहना है कि जहां तक बांग्लादेश का सवाल है तो वह भारत सरकार के साथ खड़ी है क्योंकि यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। इस पर कोई राजनीति नहीं की जानी चाहिए, लेकिन खुर्शीद जैसे नेता भारत के लोगों को यह कहकर भड़काने की कोशिश करते हैं कि जो हिंसा वहां हुई, वह भारत में भी हो सकती है। यह कांग्रेस की 'राष्ट्रनीति' के ऊपर 'राजनीति' करने का एक और उदाहरण है।

बयान से कांग्रेस की मंशा दिखी : पात्रा

खुर्शीद के बयान पर भाजपा सांसद संजय पात्रा ने कहा कि यह दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की किस प्रकार की सोच है? आज मुझे याद आता है जब राहुल गांधी संसद में खड़े होकर कहते थे कि इस देश में आग लगेगी, दंगे होंगे, प्रधानमंत्री पर हमला होगा। विदेश यात्रा में भी राहुल चोरी-छिपे कई लोगों से मिलते थे। आज मालूम पड़ रहा है कि आखिर उनकी मंशा क्या थी? कांग्रेस क्या यही चाहती है? वे चुनाव में जीत नहीं पा रहे हैं। खीज अपातकता के रूप में निकल रही है।

लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा: चुध

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तन्मय चुध ने कहा कि यह लोकतंत्र का मजाक उड़ाने वाला बयान है। इंदिरा गांधी ने 1975 में तानाशाही देश में आपतकाल लगाया था। अभी भी कांग्रेस के नेताओं के अंदर आपतकाल की आत्मा घूम रही है।

केंद्रीय उद्योग मंत्री गोयल बोले

बिम्स्टेक मुक्त व्यापार समझौते पर जल्द फैसले को आवश्यक बताया

एजेसी नई दिल्ली

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि बिम्स्टेक सदस्यों को व्यापार वार्ता के संबंध में सदस्य देशों की प्राथमिकताओं की फिर से जांच करनी चाहिए, ताकि विलंबित मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया जा सके। गोयल ने नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के साथ साझेदारी में आयोजित बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग व्यापार शांखर सम्मेलन के उद्घाटन पर यह बात कही। बिम्स्टेक का सामूहिक रूप से भविष्य उज्वल है। बिम्स्टेक एफटीए की वास्तविक संभावनाओं की जांच करने के लिए सभी सदस्य देशों के व्यापारिक समुदायों की सफाई की प्रतीक्षा है। उन्होंने कहा कि सदस्य देशों, व्यापार जगत के नेताओं को एफटीए के संबंध में प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन करने की जरूरत है, जो सभी 7 देशों को स्वीकार्य हों।

उपराष्ट्रपति धनखड़ के उद्धार

संस्कृति के प्रतीक हथकरघा को फैशन डिजाइनिंग से जोड़ा जाए

एजेसी नई दिल्ली

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि हथकरघा भारतीय संस्कृति का प्रतीक है और इसे फैशन डिजाइनिंग से जोड़ने की जरूरत है। स्वदेशी आंदोलन की सच्ची भावना में हथकरघा को बढ़ावा देने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि हथकरघा उत्पाद प्रधानमंत्री की वोकल फॉर लोकल पहल का एक प्रमुख घटक है। धनखड़ ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को संबोधित करते हुए आर्थिक राष्ट्रवाद को आर्थिक विकास और आर्थिक

केंद्र में आज पेश होगा वक्फ बोर्ड विधेयक

महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड की भूमि पर बनेगा इंटरनेशनल फुटबॉल मैदान

एजेसी नई दिल्ली

केंद्र की मोदी सरकार वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले 1995 के कानून में संशोधन करने के लिए संसद में एक विधेयक लाने वाली है। मोदी सरकार का उद्देश्य वक्फ बोर्ड के कामकाज में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। महिलाओं की अनिवार्य भागीदारी सुनिश्चित करना भी। इस बिल के संसद में पेश करने से पहले ही विरोध में आवाजें उठने लगीं। पिछले दिनों विपक्ष के कई नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार समाज में विभाजन पैदा करने के संसद में पेश अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक लाना चाहती है। सरकार ने एडवाइजरी कमेटी को बताया है कि वक्फ बिल गुरुवार को सदन में पेश किया जाएगा।

शारी तक महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री सैनी ने दी सौगात

20.28 करोड़ ऋण के साथ स्नातक तक निशुल्क शिक्षा

एजेसी जीट

हरियाणा के सिंम नायब सिंह सैनी ने बुधवार को जीट में आयोजित तीज के राज्य स्तरीय उत्सव में शिरकत की और राज्यवासियों के लिए कई बड़े ऐलान किए। सैनी ने कहा कि जीट की इस ऐतिहासिक भूमि पर, जो मां जयंती की ऐतिहासिक भूमि है, आप सभी का स्वागत है। आप को हरियाली तीज की बहुत बधाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सावन के पवित्र महीने और बेटियों-बहनों के पावन त्योहार तीज के उत्सव पर यहां आना मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है।